



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2008, शनिवार/आश्विन 27—कार्तिक 3, 1930

No. 34] NEW DELHI, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2008, SATURDAY/ASVINA 27—KARTIKA 3, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2008

आ. अ. 84,—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के लिए हुए उप निर्वाचन, 2007 के लिए ओ स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन, 2007	11-राजनंदगांव	डॉ. देवनारायण तिवारी, मु. कोहका, पो. टप्पा (डोंगरगांव) जिला-राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	वही	वही	श्री नरेश यादव, चौखडियापारा, वार्ड नं. 36, पो. राजनंदगांव, जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री मोहन गवटे, संजय वार्ड नं. 29, लखौली राजीव नगर, जैतधाम क. समने, पो. राजनंदगांव, जिला-राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।	वही-

(सं. 76/छ.ग.-लौ.स/2007 (उप)।

आदेश सं

यमंड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 7th October, 2008

O. N. 84.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Bye-Election to the House of People in the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order. :-

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Contesting Candidates	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bye-election to the House of the People, 2007-in the State of Chhattisgarh.	11-Rajnandgaon	Dr. Dev Narayan Tiwari MU. Kohka, P.O. Tappa (Dongar Gaon), Distt. Rajnandgaon Chhattisgarh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Naresh Yadav, Choukhadiyapara, W. No. 36, P.O. Rajnandgaon, Distt. Rajnandgaon, Chhattisgarh.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Bye-election to the House of the People, 2007-in the State of Chhattisgarh.	11-Rajnandgaon	Sh. Mohan Rawate, Sanjay W.No. 29, Lakholi Rajiv Nagar, In front of Jaitkham, P.O. Rajnandagaon Distt. Rajnandagaon Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.

[No. 76/CG-IJP/2007(Bye)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2008

आ. अ. 85.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के लिए हुए उप निर्वाचन, 2007-08 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम को धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	88-खैरागढ़	श्री शमीम अहमद, बसंतपुर बाई क्र.40, डोंगरगांव रोड, तह. राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छ.ग.।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री कोमल जंधेल, ग्राम-पवनतरा, पो. बिजेतला, तह.-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग.।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्रीमती कौशल्याबाई वर्मा (सोधी), बाई नं.7, शकरपुर राजनांदगांव, छ.ग.।	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री हुकुमदास वर्मा ग्राम-देवरी, तह.-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव, छ.ग.।	-वही-
5.	-वही-	63-केशकाल (अ.ज.जा.)	श्री महेश ठाकुर, ग्राम-बड़ेराजपुर (ओड़कापारा), पो.-बड़ेराजपुर तह. केशकाल, जिला-बस्तर, छ.ग.।	-वही-

[सं. 76/छ.ग.-वि.स./2007-08(उप)]

आदेश से,
बनाई जॉन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2008

O. N. 85. --Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Bye Elections to the Legislative Assembly in the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :-

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of the Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bye-election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2007	88-Khairagarh	Shri Shamir Ahmad, Basantpur, W. No. 40, Dongar Gaon Road, Tehsil-Rajnandagaon Distt. Rajnandagaon, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Koral Janghel, Vill. Pavantara, P.O. Bigetala, Tehsil Kairagarh, Distt. Rajnandagaon, Chhattisgarh	-do-
3.	-do-	-do-	Smt. Kaushilya Bai Verma (Lodhi), W.No. 7, Shankarpur, Tehsil & Distt. Rajnandagaon, Chhattisgarh.	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Hukum Das Verma, Vill. Devari, Tehsil- Karagarh, Distt. Rajnandagaon, Chhattisgarh.	-do-
5.	-do-	63-Keshkal (ST)	Shri Mahesh Thakur, Vill. Baderajpur, (Ondakapara), P.O. Baderajpur, Tehsil-Keshkal, Distt. Baster, Chhattisgarh.	-do-

{No. 76/CG-LA/2007-08(Bye)}

By Order.

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2008

आ. अ. 86.—यतः आयोग ने 212- भभुआ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से वर्ष 2005 (जनवरी-फरवरी) में हुए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री आनंद भुवण पाण्डेय, ग्राम डाकघर-भगवानपुर, थाना भगवानपुर, जिला कौमूर, भभुआ, बिहार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल न करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

को धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 7 मार्च, 2008 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2006 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होने के लिए और आयोग के दिनांक 8 जून, 2007 के नोटिस संख्या बिहार-वि.स./212/2005 प्राप्त होने के बाद भी लेखा दाखिल न करने के कारण निरहता कर दिया है;

और, यतः उक्त श्री आनंद भूषण पाण्डेय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है और अपनी बिना तारीख की उस अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरहता हटाने के लिए अनुरोध किया है।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन की गई अपील को सुनने और निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् श्री आर. बालाकृष्णन ने निर्णय किया है कि दिनांक 7 मार्च 2008 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2006 के द्वारा श्री आनंद भूषण पाण्डेय पर लगाई गई निरहता 27-08-2008 से हटा दी जाएगी।

अतः, अब, आयोग के तारीख 7 मार्च, 2008 के आदेश सं. 76/बिहार-वि.स./2006 के साथ संलग्न सारणों की क्रम सं. 7 पर स्थित श्री आनंद भूषण पाण्डेय का नाम 27-08-2008 से हटा दिया जाएगा।

[सं. बिहार-वि.स./212/2005]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th October, 2008

O. N. 86.—Whereas, the Commission, vide its Order No. 76/BR-LA/2006, dated 7th March 2008, had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 Shri Anand Bhushan Pandey Village-Post Bhagwanpur, P.S.-Bhagwanpur, Distt. Kaimgur, Bhabhua, Bihar a contesting candidate for the General Election to Bihar Legislative Assembly from 212-Bhabhua Assembly Constituency, held in the year (January-February) 2005, for being chosen as, and for being a member of the either House of the Parliament or Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 7th March, 2007 for not lodging the account of his election expenses in the manner required by law and even after receipt of a notice No. BR-LA/212/2005, dated 8th June, 2007 by the Commission in this regard;

And, whereas, the said Shri Anand Bhushan Pandey has preferred an appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and has requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal dated Nil.

Whereas, the competent authority to hear to decide the appeal under Section 11 of the R.P. Act, 1951 i.e. Shri R. Balakrishnan, Deputy Election Commissioner has vide its order dated 23rd September, 2008 has decided that the disqualification imposed on said Shri Anand Bhushan Pandey vide order No. 76/BR-LA/2006, dated 7th March, 2008, shall be removed with effect from 27-08-2008 onwards.

Now, therefore, the name of Shri Anand Bhushan Pandey appearing at Serial No. 7 of the Table appended with Commission's order No. 76/BR-LA/2006 dated 7th March, 2008 shall be omitted w.e.f. 27th August 2008.

[No. BR-LA/212/2005]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2008

आ. अ. 87.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग पंजाब सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री विजय कौन, आई.ए.एस. के स्थान पर सुश्री कुसुमजीत सिद्धू, आई.ए.एस. (पीबी : 1979) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. सुश्री कुसुमजीत सिद्धू पंजाब सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थीं।

3. सुश्री कुसुमजीत सिद्धू निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के रूप में कार्य करते हुए पंजाब सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/पीबी/2007-का.प्रशासन]

आदेश से,

एस. आर. कार, अवर सचिव

3945 GI/08-2

New Delhi, the 17th October, 2008

O. N. 87.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Punjab hereby nominates Ms. Kusumjit Sidhu, IAS (PB: 1979) as the Chief Electoral Officer for the State of Punjab with effect from the date she takes over charge and until further orders vice Shir Vijay Kain IAS.

2. Ms. Kusumjit Sidhu shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Punjab, which she may be holding before such assumption of office.

3. Ms. Kusumjit Sidhu while functioning as the Chief Electoral Officer, Punjab shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Punjab except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/PB/2007-P.Admin.]

By Order.

S. R. KAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2008

आ. अ. 88.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, वर्ष 2004 की निर्वाचन अर्जी सं. 06 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के तारीख 25 अप्रैल, 2008 के आदेश को पुनर्द्वारा प्रकाशित करता है।

(आदेश इस अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में दिया है।)

[सं. 82/राज-लो.स./ (06/2004)/2008]

आदेश से,

सत्येन्द्र कुमार रूडोला, सचिव

New Delhi, the 17th October, 2008

O. N. 88.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Judgement of the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench, dated 25th April, 2008 in Election Petition No. 06 of 2004.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. ELECTION PETITION NO. 06/2004

Mahant Chand Nath Chela of Late Mahant Shrayo Nath,

Resident of Gaddi Math Asthal Bohar, Rohtak (Haryana).

.....Petitioner

Versus

- (1) Dr. Karan Singh Yadav son of Sh. Ganpat Singh, Resident of Ward No. 1 Narnaul Road, Behror, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (2) Shri Bhai Sri Nath Gurjar son of Sh. Jhandu Singh, Resident of 3/54, Arawali Vihar, Housing Board, Alwar (Rajasthan)
- (3) Shri Chandra Bhan son of Sh. Mangatu Ram, Resident of Village Bagheri Kalan, Tehsil Kishan Garh Bas, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (4) Shri Buxa Nand Bhartee son of Sh. Beli Kann, Resident of Village and Post Bhindusee, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (5) Smt. Manjul Kaushik wife of Sh. Suresh, Resident of Manu Marg Alwar Bus Stand Road, Alwar (Rajasthan)
- (6) Sh. Mool Chand son of Sh. Dhanasbai, Resident of Village Gothadee, Post Gothada, Tehsil Kishangarh Bas, Distt. Alwar (Rajasthan)

- (7) Shri Ramesh Chand son of Sh. Prabhu Dayal, Resident of Village and Post Surer, Tehsil Rajgarh, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (8) Shri Laxman Saini son of Sh. Budha Ram, Resident of Village and Post Barnbora, Via Kishangarh Bas, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (9) Pt. R.D. Sharma son of Sh. Bhonrya, Resident of Village Moondia, Tehsil Laxmangarh, Distt. Alwar (Rajasthan)
- (10) Sh. Sagar Mal son of Sh. Mohan Lal, Resident of Village Karana, Tehsil Bansoor, Distt. Alwar (Raj.)
- (11) Shri Subhash son of Sh. Phool Singh, Resident of Village and Post Kohrana, Tehsil Behroo, Distt. Alwar (Rajasthan)

.... Respondents

Election Petition under section 80 Read with 100 and 101 of the Representation of the People Act, 1951 Challenging the Election of Respondent No.1 Dr. Karan Singh Yadav from Alwar Parliament Constituency No.8

OF THE PARLIAMENT OF INDIA, THE RESULT OF WHICH WAS DECLARED ON 13-5-2004.

To,

Election Petition No. 6/04

25-4-08

Hon'ble J.R. Goyal, J

None for the petitioner

Mr. Rajendra Prasad, for the respondent.

After pleading no instructions on 27-8-08 by Mr. C.S. Sharma, learned counsel for the petitioner, fresh notices were issued to the petitioner in the interest of justice but despite service, today nobody has appeared for the petitioner even in the second round.

Therefore, this petition is dismissed in default

[No. 82/RJ-HP/(06/2004)/2008]

By Order,

S.K. RUDOLA, Secy.